

First Term Examination, 2016-17**Subject : Accountancy****Class : XI****Time : 3 Hrs.]****[M. M. : 75****General Instructions :**

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Attempt all parts of a particular question at one place.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) किसी एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर एक ही स्थान पर लिखिए।

-
- | | |
|---|---|
| 1. What is meant by 'Tangible Assets'? | 1 |
| 'मूर्त सम्पत्तियों' से क्या अभिप्राय है? | |
| 2. Which system of Accounting is widely used? | 1 |
| लेखांकन की कौन-सी प्रणाली व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? | |
| 3. Identify any two values involved in full disclosure principle. | 1 |
| पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत में निहित किन्हीं दो मूल्यों की पहचान कीजिए। | |
| 4. Name the types of Accounting Vouchers. | 1 |
| लेखांकन बीजकों के भेदों/प्रकारों के नाम बताइए। | |
| 5. Is Bank Reconciliation Statement a part of Double Entry System? | 1 |
| क्या बैंक समाधान/मिलान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का एक भाग है? | |
| 6. Explain any three limitations of accounting. | 3 |
| लेखांकन की किन्हीं तीन सीमाओं की व्याख्या कीजिए। | |
-

7. "Capital is a liability for the business." Explain the statement with the principle applied. 3

“पूँजी व्यवसाय के लिए एक दायित्व है।” उपर्युक्त कथन की व्याख्या प्रयोग किए गए सिद्धांत से कीजिए।

8. Distinguish between cash basis and accrual basis of accounting. (Any three) 3

लेखांकन के रोकड़ आधार व उपार्जन आधार में भेद कीजिए। (कोई तीन)

9. What do you mean by Accounting Standards? Write its any two objectives. 1 + 2 = 3

लेखांकन प्रमाणों से आप क्या समझते हैं? इसके कोई दो उद्देश्य लिखिए।

10. Classify the following into Assets, Liabilities, Capital, Revenue and Expenses : 6 × ½ = 3

(i) Bank loan (ii) Goodwill

(iii) Wages (iv) Drawings

(v) Sales (vi) Patents

निम्न को संपत्ति, दायित्व, पूँजी, आय व व्यय में वर्गीकृत कीजिए —

(i) बैंक ऋण (ii) ख्याति

(iii) मजदूरी (iv) आहरण

(v) विक्रय (vi) एकस्व

11. Define a Trial Balance and explain why it is prepared? 3

तलपट की परिभाषा दीजिए तथा व्याख्या कीजिए कि यह क्यों बनाया जाता है ?

12. Explain the following terms : 4

(i) Drawings (ii) Bad debts

(iii) Revenue expenditure (iv) Debtors

निम्न मदों की व्याख्या कीजिए —

(i) आहरण (ii) डूबत ऋण

(iii) आयगत व्यय (iv) देनदार

13. Prepare accounting equation on the basis of the following transactions : 4

(i) Priyanka started business with cash ₹ 1,00,000 and bank balance ₹ 50,000.

(ii) Bought goods costing ₹ 30,000 from Janvi and paid ₹ 20,000 by cheque.

(iii) Internet bill paid in cash ₹ 1,500.

(iv) Paid ₹ 9,000 to Janvi in full settlement.

निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए —

- (i) प्रियंका ने ₹ 1,00,000 रोकड़ तथा ₹ 50,000 बैंक शेष के साथ व्यवसाय आरंभ किया।
- (ii) जाह्नवी से ₹ 30,000 लागत का माल क्रय किया तथा ₹ 20,000 चैक से भुगतान किया।
- (iii) इंटरनेट बिल ₹ 1,500 का नकद भुगतान किया।
- (iv) जाह्नवी को ₹ 9,000 पूर्ण भुगतान में चुकाए।

14. Explain any two source documents.

2 × 2 = 4

किन्हीं दो स्रोत प्रपत्रों की व्याख्या कीजिए।

15. Mention the subsidiary books in which following transactions are recorded along with reason thereof:

4

- (i) Purchase of air conditioner from Hariom for office.
- (ii) Goods returned by debtors.
- (iii) Sale of goods for cash
- (iv) Bought goods from Kalpit

कारण सहित बताइए कि निम्न लेन-देन किन सहायक बहियों में प्रविष्ट किए जाएँगे —

- (i) हरिओम से कार्यालय के लिए वायु शीतलक क्रय किया गया।
- (ii) देनदारों द्वारा माल लौटाया गया।
- (iii) माल का नकद विक्रय।
- (iv) कल्पित से माल क्रय किया।

16. Prepare an account for Komal (Debtor) in the ledger of Anannya Ltd. and post the following transactions:

4

	₹
(i) Sold goods to Komal on credit	20,000
(ii) Goods returned by Komal	2,000
(iii) Cash received from Komal in full settlement	17,500
(iv) Sold goods to Komal for cash	7,000

अनन्या लिमिटेड की खाताबही में कोमल (देनदार) का खाता बनाइए तथा निम्न लेन-देनों की खतौनी कीजिए —

	₹
(i) कोमल का उधार विक्रय किया	20,000
(ii) कोमल द्वारा माल लौटाया गया	2,000
(iii) पूर्ण भुगतान में कोमल से नकद प्राप्त किया	17,500
(iv) कोमल को माल का नकद विक्रय किया	7,000

17. Journalise the following transactions in the books of Lucky:

6

- (i) Loan advanced to Pradeep ₹ 10,000.
- (ii) Gave away as charity goods costing ₹ 5,000 and cash ₹ 2,100.
- (iii) Cash withdrawn from bank for personal use ₹ 5,000.
- (iv) Received an advance of ₹ 10,000 from Shikha against order for supply of goods for ₹ 50,000.
- (v) Cheque received from Kanta ₹ 10,000.
- (vi) Kanta's cheque deposited into bank.

लक्की की पुस्तकों में निम्न लेन-देनों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए —

- (i) प्रदीप को ऋण दिया ₹ 10,000.
- (ii) ₹ 5,000 लागत का माल तथा ₹ 2,100 नकद, दान के रूप में दिए।
- (iii) व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से आहरण किया गया ₹ 5,000.
- (iv) शिखा से ₹ 50,000 के माल के आदेश के सम्बन्ध में ₹ 10,000 अग्रिम प्राप्त किए।
- (v) कान्ता से चेक प्राप्त किया ₹ 10,000.
- (vi) कान्ता से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया।

18. Enter the following transactions in two column cashbook with Cash and Bank columns:

6

2016	₹
Aug. 1 Cash in hand	24,800
Bank overdraft	5,300
Aug. 5 Deposited into bank	7,800
Aug. 10 Received cheque from Rajat	6,000

Aug. 16	Paid Harish by cheque	9,000
Aug. 20	Withdrew from bank for office use	10,000
Aug. 25	Paid carriage	300
Aug. 31	Bank charges	100

निम्न व्यवहारों को रोकड़ तथा बैंक वाली द्वि-स्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए -

2016		₹
अगस्त 1	हस्तस्थ रोकड़	24,800
	बैंक अधिविकर्ष	5,300
अगस्त 5	बैंक में जमा करवाए गए	7,800
अगस्त 10	रजत से चैक प्राप्त किया	6,000
अगस्त 16	हरीश को चैक से भुगतान किया	9,000
अगस्त 20	कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाले	10,000
अगस्त 25	भाड़ा चुकाया	300
अगस्त 31	बैंक प्रभार	100

19. The following Trial Balance is prepared by an unexperienced accountant. Redraft it in a correct form : 6

	Dr. Balance	Cr. Balance
	(₹)	(₹)
Bank overdraft	56,000	—
Capital account	88,000	—
Cash in hand	—	8,000
Land and Building	—	80,000
Purchases Return	16,000	—
Sales Return	—	32,000
Salaries	32,000	—
Purchases	1,12,000	—
Sales	—	1,76,000

	6	
Debtors	32,000	—
Creditors	—	48,000
Sundry Expenses	24,000	—
Commission Received	—	16,000
Total	3,60,000	3,60,000

Note : Accountant wrongly omitted to include investment worth ₹ 80,000.

निम्नलिखित तलपट एक अनुभवहीन लेखाकार द्वारा तैयार किया गया। आप इसे सही प्रारूप में पुनः तैयार कीजिए —

	नाम शेष (₹)	जमा शेष (₹)
बैंक अधिविकर्ष	56,000	—
पूँजी खाता	88,000	—
हस्तस्थ रोकड़	—	8,000
भूमि एवं भवन	—	80,000
क्रय वापसी	16,000	—
विक्रय वापसी	—	32,000
वेतन	32,000	—
क्रय	1,12,000	—
विक्रय	—	1,76,000
देनदार	32,000	—
लेनदार	—	48,000
विविध व्यय	24,000	—
कमीशन प्राप्त किया	—	16,000
कुल	3,60,000	3,60,000

नोट : लेखाकार गलती से ₹ 80,000 के विनियोग को शामिल करना भूल गया।

20. Explain the following concepts/principles with suitable examples :

- Consistency Assumption
- Accounting Period principle
- Money measurement concept

निम्न अवधारणाओं/सिद्धांतों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए –

- (i) एकरूपता मान्यता
- (ii) लेखांकन अवधि सिद्धांत
- (iii) मुद्रा माप अवधारणा

21. From the following particulars, prepare Bank Reconciliation Statement for Sh. Madan Mohan as on 31st March, 2016 :

8

- (i) Dr. Balance as per pass book ₹ 40,000.
- (ii) Cheques drawn on 28th March, 2016 but not presented for payment till April, 2016 : ₹ 15,000, ₹ 5,000 and ₹ 8,000.
- (iii) Interest on Bank overdraft not entered in cashbook ₹ 2,000.
- (iv) Outstation cheque ₹ 30,000 deposited into bank but collected in April, 2016.
- (v) ₹ 5,000 Insurance premium paid by bank as per standing instruction has not been entered in cash book.
- (vi) Dividend of ₹ 1,500 collected by bank but not shown in cashbook till date.
- (vii) Directly deposited by customer (Dhara) ₹ 5,000.
- (viii) A wrong debit of ₹ 750 by bank in pass book.

OR

Prepare Purchases Book of M/s Sankalp Furnitures from the following transactions and also post it into ledger :

2016

- April 1 Purchased from M/s Ojas & Co. on credit :
 - 5 chairs @ ₹ 1,000 per chair
 - 1 round table @ ₹ 2,000 per table
 - Less : Trade discount 10%
- April 5 Bought from Mukesh for cash
 - 10 beds @ ₹ 10,000 per bed
- April 15 Bought computer for office use from M/s Ritik Co. on credit ₹ 35,000.

P. T. O.

April 26 Bought on credit from Anshu

3 sofa sets @ ₹ 20,000 per set

April 29 Purchased 1 dozen chairs @ ₹ 500 per chair from M/s Pawan and Co.

निम्न सूचनाओं से श्री मदन मोहन का 31 मार्च, 2016 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए —

- (i) पासबुक के अनुसार नाम शेष ₹ 40,000।
- (ii) ₹ 15,000; ₹ 5,000 एवं ₹ 8,000 के चेक 28 मार्च, 2016 को जारी किए परन्तु अप्रैल, 2016 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए।
- (iii) बैंक आहरण पर ब्याज, परन्तु रोकड़ बही में लेखा नहीं किया गया ₹ 2,000.
- (iv) ₹ 30,000 का बाह्य चेक बैंक में जमा करवाया किन्तु अप्रैल, 2016 में संग्रहण हुआ।
- (v) ₹ 5,000 बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा स्थायी निर्देशों के अनुसार किया गया परन्तु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई।
- (vi) ₹ 1,500 का लाभांश बैंक द्वारा संग्रहित किया गया परन्तु अभी तक रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया।
- (vii) एक ग्राहक (धारा) द्वारा सीधे बैंक में जमा करवाए गए ₹ 5,000।
- (viii) बैंक द्वारा ₹ 750 पास बुक में गलत नाम (डेबिट) किए गए।

अथवा

निम्न लेन-देनों से मैसर्स संकल्प फर्नीचर्स की क्रय बही तैयार कीजिए एवं खाता बही में खतौनी कीजिए —

2016

अप्रैल 1 मैसर्स ओजस एवं कं. से उधार क्रय किया

5 कुर्सियाँ ₹ 1,000 प्रति कुर्सी की दर से

1 गोल मेज ₹ 2,000 प्रति मेज की दर से

घटाया : व्यापारिक बट्टा 10%

अप्रैल 5 मुकेश से नकद क्रय किया

10 बैड प्रति बैड ₹ 10,000 की दर से

अप्रैल 15 मै. रितिक क. से कार्यालय प्रयोग के लिए ₹ 35,000 का कम्प्यूटर उधार क्रय किया

अप्रैल 26 अंशु से उधार क्रय किया

3 सोफा सैट ₹ 20,000 प्रति सैट की दर से

अप्रैल 29 मै. पवन एवं क. से एक दर्जन कुर्सियाँ ₹ 500 प्रति कुर्सी की दर से क्रय की।